



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 442]

No. 442]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 4, 1983/अश्विन 12, 1905  
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 1983 /ASVINA 12, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1983

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Office of the Development Commissioner (Drugs)

ORDERS

New Delhi, the 29th September, 1983

का० आ० 706 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण)  
आदेश, 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त  
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पेट्रोलियम,  
रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश  
सं० का० आ० 603 (अ), तारीख 22 जुलाई, 1981 का निम्नलिखित  
संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में क्रम संख्यांक 16 और उससे  
संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ  
रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"16.	डॉक्सिसाइक्लिन कैप्सूल	100	6 का	7.54"।
		मि० आ० पत्ता/बोतल		
		कैप्सूल		

S.O. 706(E).—In exercise of the powers conferred by clause  
(a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices  
Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes  
the following amendment in the Order of Government of India  
in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers  
(Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 603  
(E), dated the 22nd July, 1981, namely:—

In the Table below the said Order, for serial number 16 and  
the entries relating thereto, the following serial number and  
entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"16.	Doxycycline 100mg/capsule	6's strip/bottle		7.54"
	Capsules			

[सं० 9 (31)/82-औषधि-II]

[No. 9 (31)/82-D-II]

का० आ० 707 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 548 (अ), तारीख 8 जुलाई, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में, क्रम संख्यांक 7, 8, 9, 10, और 11 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

7. डाक्सीसाइक्लिन कैप्सूल 100 मि० ग्रा०/कैप्सूल 10 की बोतल/पट्टी	12.82
8. डाक्सीसाइक्लिन कैप्सूल 100 मि० ग्रा०/कैप्सूल 4 की बोतल/पट्टी	5.34
9. डाक्सीसाइक्लिन कैप्सूल 100 मि० ग्रा०/कैप्सूल 2 की शीशी/पट्टी	3.52
10. डाक्सीसाइक्लिन कैप्सूल 100 मि० ग्रा०/कैप्सूल 3 की शीशी/पट्टी	4.88
11. डाक्सीसाइक्लिन शर्बत 50 मि० ग्रा०/5 मि० लि० 25 मि० ली० बोतल	5.32" 1

[सं० 9 (31)/82-औषधि-II]

S.O.707(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 548 (E), dated the 8th July, 1981, namely:—

In the Table below the said Order, for serial numbers 7, 8, 9, 10 and 11 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be substituted, namely:—

7. Doxycycline 100mg/capsule 10's bottle/-strip	12.82
8. Doxycycline 100mg/capsule 4's bottle/-strip	5.34
9. Doxycycline 100mg/capsule 2's vial/-strip	3.52
10. Doxycycline 100mg/capsule 3's vial/-strip	4.88
11. Doxycycline 50mg/5 ml 25 ml bottle Syrup	5.32".

[No. 9 (31)/82-D-II]

का० आ० 708 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 666 (अ), तारीख 24 अगस्त, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में, क्रम संख्यांक 16, 17, और 18 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

16. डाक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन 50 मि० ग्रा०/मि० ली० 10 मि० ली० शीशी	9.88
--	------

17. डाक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन 50 मि० ग्रा०/मि० ली० 2 मि० ली० एम्प्यूल	2.5
18. डाक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन 100 मि० ग्रा०/मि० ली० 5 मि० ली० शीशी	4.38" 1

[सं० 9 (31)/82-औषधि-II]

S.O. 708 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 666 (E), dated the 24th August, 1981, namely:—

In the Table below the said Order for serial numbers 16, 17 and 18 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

16. Doxycycline 50 mg/ml Injection	10ml vial	9.68
17. Doxycycline 50mg/ml Injection	2ml ampoule	2.52
18. Doxycycline 100mg/ml Injection	5ml vial	4.38."

[No.9 (31)/82-D-II]

का० आ० 709 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमतों को, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग 3 सूत्रयोग की, जिसकी प्रवृत्तता और पैक आकार क्रमशः उसके स्तंभ (3) और (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, अथवा कीमत के रूप में, जिसके अंतर्गत उत्पाद-शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई हों, नहीं हैं, नियत करती है:—

सारणी				
क्रम सं०	सूत्रयोग का नाम	प्रवृत्तता	पैक आकार	अग्रणी कीमत (र०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रवर्ग 3 सूत्रयोग:				
1. आक्सीटासिन इंजेक्शन 2 आई. यू./एम्प्यूल	6 एंपियर × 2 मि० ली०	6.34		
2. आक्सीटासिन इंजेक्शन 2 आई. यू./एम्प्यूल	50 एंपियर × 2 मि० ली०	52.90		
3. आक्सीटासिन इंजेक्शन 2 आई. यू./एम्प्यूल	100 एंपियर × 2 मि० ली०	105.80		
4. आक्सीटासिन इंजेक्शन 5 आई. यू./एम्प्यूल	6 एंपियर × 1 मि० ली०	5.96		
5. आक्सीटासिन इंजेक्शन 5 आई. यू./एम्प्यूल	50 एंपियर × 1 मि० ली०	48.48		
6. आक्सीटासिन इंजेक्शन 5 आई. यू./एम्प्यूल	100 एंपियर × 1 मि० ली०	92.90		
7. जेन्टामाइसिन टॉपिकल फ्रीम जेन्टामाइसिन आधार वाला	5 ग्राम 0.1 %/ड्रॉप्स/ड्रॉप्स	2.00		

[सं० 9 (31)/82-औषधि-II]

3) 709(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes the prices as specified in column (5) of the Table below as the leader price exclusive of excise duty and local taxes, if any, of each of the Category III formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack size respectively in the corresponding entry in columns (3) and (4) thereof:—

TABLE

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack size	Leader price (Rs.)
1	2	3	4	5
<b>CATEGORY III FORMULATIONS:</b>				
1.	Oxytocin Injection	2 i.u./ampoule	6Amps X 2ml	6.34
2.	Oxytocin Injection	2 i.u./ampoule	50Amps X 2ml	52.90
3.	Oxytocin Injection	2 i.u./ampoule	100Amps X 2ml	105.80
4.	Oxytocin Injection	5 i.u./ampoule	6Amps X 1ml	5.96
5.	Oxytocin Injection	5 i.u./ampoule	50Amps X 1ml	46.48
6.	Oxytocin Injection	5 i.u./ampoule	100Amps X 1ml	92.90
7.	Gentamycin Topical Cream	0.1% w/w of Gentamycin Base	5gm tube	2.00

[No. 9(31)/82-D-II]

का० आ० 710 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) अधिनियम, 1979 के पैरा 12 के उपपैरा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं० का० आ० 559 (अ), तारीख 6 अगस्त, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त आदेश से उपाबद्ध सारणी में, "प्रवर्ग 2 बिनिमित्तिया" शीर्षक के नीचे, क्रम संख्यांक 1 (ग), 2 (क) और 2 (ग) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

- "1 (ग) टेट्रासाइक्लीन आई आईटमेंट/ टेट्रासाइक्लीन एच 3.5 ग्राम 1.27";  
 ओशन/ट्राकेज/सूपरसाइड्स/ सी एल 1% ट्यूब  
 ड्राप्स
- "2 (क) डीमेथिल क्लोरोटेट्रासाइ- 30 मि०ग्रा० डीमे- 10 की 1.26";  
 क्लीन कैप्सूल/टिकिया (बिलेय) थिल क्लोरोटेट्रा स्ट्रिप  
 साइक्लीन एचसी- बोतल  
 एल/टिकिया
- "2 (ग) डीमेथिल क्लोरोटेट्रासाइ- 1% क्लोरोटेट्रा- 3.5 ग्राम 1.27"  
 क्लीन/क्लोरोटेट्रासाइक्लीन साइक्लीन एच सी ट्यूब  
 आई आईटमेंट/लोशन एल

[सं० 9 (31)/82-औषधि-II]

ई० एन० मूर्ति, उप सचिव

S.O. 710(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (2) of paragraph 12 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 559(E), dated the 6th August, 1982, namely:—

In the Table annexed to the said Order, under the heading "Category II formulations", for serial numbers 1(c), 2(a) and 2(c), and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:—

- "1(c) Tetracycline Eye Ointment 3.5gm tube 1.27";  
 Tetracycline Hcl 1% tube  
 lotion/troches/supersoids/-drops
- "2(a) Demethyl Chloro-Tetracycline Capsules/-tablets (soluble) 30mg demethyl chlorotetracycline Hcl. Tablet 10's strip bottle 1.26";
- "2(c) Demethyl Chloro-Tetracycline/-Chloro-Tetracycline Eye Ointment/lotion 1% chloro-Tetracycline Hcl. 3.5gm tube 1.27".

[No. 9(31)/82-D-II]

E.N. MURTHY, Dy. Secy.

